



HAMIRPUR POLICE



साइबर सेल

दिनांक-27.07.2022

साइबर सेल द्वारा 02 आवेदकों का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ कुल 1,26,912/- रुपये वापस करवाया गया:-

अवगत कराना है कि आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनके बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़ी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड/धोखाधड़ी की जा रही है। उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर सेल हमीरपुर द्वारा निरन्तर अभियान चला कर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आवेदक:-

1) श्री सुरेश कुमार प्रजापति निवासी ग्राम बिदोखर पुरई थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा दिनांक 31.03.2022 को साइबर सेल हमीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अज्ञात द्वारा दिनांक 30/03/2022 को फोन के माध्यम से मित्र बनकर खाते में पैसा जमा करने के लिए ₹80,000 की अलग-अलग रिक्वेस्ट डाली, ओटीपी डालने पर ₹80,000 की धनराशि खाते से कट गई, दिनांक 17/04/2022 को आवेदक की बेटी की शादी थी ठगी होने से आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशान था, इस सम्बन्ध में साइबर सेल हमीरपुर द्वारा शिकायतकर्ता से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए 80,000/- रुपये की धनराशि शिकायतकर्ता के खाते में वापस करवाई गई।

2) श्री आकाश यादव पुत्र दुर्गेश यादव निवासी तिंदुहि थाना मौदहा जनपद हमीरपुर द्वारा दिनांक 22/06/2022 को साइबर सेल हमीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके फोन पर कॉल कर पत्नी की डिलीवरी पर मिलने वाली सरकारी सहायता दिलवाने के नाम पर फ्रॉड कर ₹83910 की ठगी कर ली गई, इस संबंध में साइबर सेल हमीरपुर द्वारा संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक को ₹46,912/- की धनराशि खाते में वापस करवाई गई, शेष धनराशि की बरामदगी हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी करने वाली टीम:-

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) नि० बृजेश कुमार यादव | 4) का० वाहिद खान |
| 2) हे०का० संदीप यादव | 5) का० विनोद विश्वकर्मा |
| 3) का० युनूस खान | 6) का० चंद्र भुवन |



आवश्यक सूचना-

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत साइबर सेल, संबंधित थाना या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके।